p perfectpac limited

Regd. Off: 910, Chiranjiv Tower, 43-Nehru Place, New Delhi-110019 CIN No. : L72100DL1972PLC005971 Tel: 011-2644 1015-17, Fax : 011-2644 1018 website : www.perfectpac.com, e-mail: complianceofficer@perfectpac.com

February 05, 2022

BSE Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001 Scrip Code No. 526435	The Calcutta Stock ExchangeLimited,7, Lyons Range,Kolkata 700001Stock Code 026097
---	---

Sub: <u>Submission of copies of Newspaper Advertisement- Unaudited</u> <u>Financial Results</u>

Dear Sir,

Further to our letter dated February 04, 2022 regarding approval of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2021. Please find enclosed herewith newspaper advertisement published, in compliance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in Pioneer (English) and Pioneer (Hindi) on February 05, 2022.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully, For **Perfectpac Limited**

refati d

Shefali Chauhan Company Secretary

Encl: as above





Govt to settle almost all retro-tax Govt imposes stock limit cases this month: Revenue Secy

New Delhi: The Government will settle almost all the retrospective tax cases this month, closing a chapter that plagued India's reputation as an investment-friendly destination, a

top official said on Friday. A 2012 amendment that

gave taxmen powers to go back 50 years and slap capital gains levies wherever ownership had changed hands overseas but business assets were in India, was used to raise ₹1.1 lakh crore demand against multi-nation-

als such as telecom group Vodafone, pharmaceuticals company Sanofi and brewer SABMiller, now owned by AB dropped lawsuits. Cairn is now

eligible for the tax refund. InBev, and Cairn Energy Plc. Such demands brought uncer-

tainty in the minds of investors. To repair India's damaged reputation as an investment destination, the government in August 2021 enacted a new legislation to drop all such demand and refund about ₹ 8,100 crore said. collected on the condition that any pending lawsuit or legal

challenge against the government anywhere in the world would be dropped. Cairn, from whom ₹7,900 crore was seized to enforce the retrospective tax demand, as well as Vedanta Group, have

"In the month of August, we abolished the retrospective taxation and we would be settling almost all the cases this month itself. So, we will close

that chapter once and for all," Revenue Secretary Tarun Bajaj The move will help restore

investor confidence by provid-ing a predictable and stable tax regime. "So stability, predictability

and not giving any surprise is a matter of tax policy which we have implemented," he said at a PHD chamber event here. PTI

on edible oils and oilseeds PNS 🗖 NEW DELHI The Government had earlier

notified the stock limits on edible In an effort to further cool down the prices of edible oils, the oils and oilseeds on October 8, last year and it is valid upto 31st Government has notified the stock March 2022. However, the quantities of stock limits of oils and limit quantities on edible oils and oilseeds upto 30th June, 2022. For oilseeds were left to be decided by edible oils, the stock limit would be the States/UTs on the basis of avail-30 quintals for retailers, 500 quinable stock and consumption pattals for wholesalers, 30 quintals for tern retail outlets of bulk consumers or On review of this Order, it was big chain retailers and shops and observed that only six (06) States viz. Uttar Pradesh, Karnataka,

Himachal Pradesh, Telangana,

Rajasthan and Bihar had imposed

the stock limit order in pursuance

of the Central Order in their State.

mentioned six (06) States.

AICICI Bank

Name of the Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor/ (Loan Account Number) & Address

Ajeet Kumar Singh, Rita Singh, B 4 Gali No First Floor, West Binod Nagar, Near Manglam Hospital, Delhi A/c No:- LBDEL00002453642

Mohit., Roshi Gulati, H-804 Princess Park, Sector-86 Old

Salim Siddiqui, Tasmeen Sultan Begum, D-331, Sector-1, Pratap Vihar, Near Radhey Shyam Sweet, Ghaziabad A/c No:- LBNOD00001738818

Bal Krishan Dua, 1150, Multani Mohalla, Main Gandhi

Nagar Road, Bandh Road, Delhi

A/c No:- LBDEL00001431340

A/c No:- LBFDB00004364371

Faridabad, Faridabad

way of this public notice.

Sr. No.

1000 quintals for its depots. Processors of edible oils would be able to stock 90 days of their storage capacities.

According to the order, for edible oilseeds, the stock limit would be 100 quintals for retailers, 2000 quintals for wholesalers. Processors of edible oilseeds would be able to stock 90 days production of edible oils as per daily input production capacity. Exporters and importers have been kept outside the purview of this Order with some caveats.

Budget to give stability to the country: Karad

Kolkata: Union Minister of State for Finance Bhagwat Kishanrao Karad on Friday said that the union budget presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman will give stability to the country. The budget had proposed dif-

ferent schemes to support various sectors of the economy in the pandemic situation, he said at an event organised by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) 'The finance minister presented the budget to give stability to the country," Karad said.

The Minister said there is Since implementation of stock a need to develop India in all aspects limits across all States/UTs is necessary to transfer the full benefit of like education, health, defence and price control to end consumers, the agriculture. "We need a good economy to make USD trillion dol-Union Government has vide its Order dated 3rd February, 2022 lars turnover in GDP by 2025", he specified the quantities of stock said. GST collections are increasing each month which augurs well for limits of edible oils and oilseeds for all States/UTs except the above the country, the Union Minister added.

PUBLIC NOTICE

The following borrower/s have defaulted in the repayment of principal and interest of the loans facility obtained by them from the Bank and the loans have been classified as Non-Performing Assets (NPA). A notice was issued to them under Section 13 (2) of Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act-2002 on their last known addresses, however it was not served and hence they are hereby notified by

aridabad

Ghaziabad

Branch Office: ICICI Bank Ltd, 3rd Floor, Plot No- 23, New Rohtak Road, Karol Bagh, Delhi- 110005

Manglam Hospital, Delhi

No-C-1/2, Loni, Ghaziabad

Property Address of Secured Asset /

Asset to be Enforced

B 4, Gali No First Floor, West Binod Nagar, Near

First Floor (RHS), Block-C-1, DLF Ankur Vihar, Plot

H-804, Princess Park, Sector-86, Old Faridabad,

Flat No- D- 351A, Sec-11, G M P Pratap Vihar,

IL&FS sells entire stake in Warora Chandrapur Highway

Mumbai: Debt-ridden Infrastructure Leasing and Financial Services (IL&FS) on Friday said it has completed sale of its 35 per cent stake in Warora Chandrapur Ballarpur Toll Road Ltd (WCBTRL) to its majority joint venture partner Vishvaraj Infrastructure Ltd (VIL).

The sale entails VIL taking over entire external debt of WCBTRL amounting to ₹306 crore, providing equity value of over ₹12 crore and settling IL&FS Group dues amounting to ₹6 crore. This will result into resolving ₹324 crore from the overall IL&FS Group's debt of about ₹99,000 crore, as of October 2018, a release said.

The key lenders to the project - Bank of India, Indian Overseas Bank and India Infrastructure Finance Company Ltd (IIFCL) - have all approved the sale and change in ownership, the release said.

More needed for informal sec workers

New Delhi: In the Union Budget, the Finance Minister has also indicated the creation of six million new jobs. "Considering the State of the economy, much more was needed. However, seen in the light of the pressing need of increasing employment and income, the 2022 budget has belied hopes of the more than 50 crore informal workers and many more," ActionAid PTI | Association Executive Director Sandeep Chachra.

Date of Notice Sent/ Outstanding as on Date of Notice

31/12/2021

Rs. 24,05,603/-

31/12/2021

Rs. 5,84,780/-

31/12/2021

Rs. 25,88,215/-

31/12/2021

Rs. 3,79,643/-

NPA Date

31/10/

2021

31/10/

2021

04/10/

2021

10/06/

2021

12/07/ 2021

2021

06/10/ 2021

04/10/ 2021

2021

2021

2021

Mukesh Ambani's latest buy: A Rolls Royce costing ₹13.14 crore

Mumbai: Reliance Industries (RIL), headed by India's richest man Mukesh Ambani, has bought an ultra-luxury Rolls Royce hatchback costing Rs 13.14 crore. If RTO officials are to be believed, it is one of the most expensive car purchases ever in the country.

The car, a Rolls Royce Cullinan petrol model, was registered by RIL at the Tardeo Regional Transport Office in South Mumbai on January 31. officials aware of the matter said. The base price of the car, when first launched in 2018, was ₹6.95 crore, but auto industry experts said customized modifications would have raised the price substantially. The company has opted for the 'Tuscan Sun' colour for the 12-cylinder car weighing over 2.5 tonnes and producing 564 BHP power, and also obtained a special number plate, RTO officials said.

A one-time tax of ₹ 20 lakh has been paid by RIL for the car whose registration is valid till January 30, 2037, and another ₹40,000 has been paid towards road safety tax. This could even be the most expensive car purchased in India, said one RTO official. RIL has also paid ₹ 12 lakh for getting a VIP number for its chairman and managing director's new car.

The number ends with "0001", officials said. Usually a VIP number costs ₹4 lakh, but since the chosen number in the current series was already taken, a new series had to be started, they said. With a written permission from the Transport Commissioner, RTO offices can start a new series for assigning registration mark 0001 for which the applicant has to shell out three times the fee specified for a regular number, they added. Rolls Royce Cullinan was launched in India in 2018 as a hatchback capable of taking both paved and rough roads, and this will be a third Cullinan model in the Ambani/RIL

PTI

निविदा क्रमांक सिस्टम

स.

Krishan Kumar Chawla, Tee Cee Hosiery Pvt Ltd, Tara Chand Chawla, Vandana Chawla, 85, SRM CGHS Ltd., 106, I.P. Extn. Patparganj, Delhi A/c No:- LBFDB00001356892 garage. 31/12/2021 Plot No. 72, Niti Khand-II, Indira Puram, Ghaziabad 9,18,560.48/-UJVN Limited H.O.: "UJJWAL", Maharani Bagh, G.M.S. Road, Dehradun-248006 Telephones: 0135-2763808, Fax: 0135-2763508 CIN No.U40101UR2001SGC025866, Website:www.ujvnl.com 28/12/2021 04/10/ Mukesh Singh, Kiran., H No 1571 Sectir-10A, Gurgaon Teh Gurgaon, Gurgaon A/c No:- LBDEL00002378475 Flat No-0207, 2nd Floor, Block-C2, Delight Residences Khasara No 205, 206, 207, 208, 209, 697/210, Vill-Tapukara, Teh- Tijara, Distt- Alwar, Bhiwadi 🙉 PARADIP PORT TRUST 💒 Rs. 18,42,491.65/-Paradip - 754 142, Odisha (India) 28/12/2021 04/10/ 2021 Prakash Chandra Joshi, Rama Joshi, Block No 4 H No 369, Khichadipur, Trilok Puri East Delhi, Delhi A/c No:- LBDEL00005042703 body under Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Govt. of India) Khasra, No S 1097min and 1098min, Block K Flat No-K-1106. 11th Floor, Diya Green City-Block K, Rs. 16,83,191/-<u>Time Extension Notice – I</u> Date: 04/02/202 Letter No: 59 ADVERTISEMENT Pargana Jalalabad, Ghaziabad Due to unavoidable circumstances, the invited "e"-Tender Notice No: 04/10/ 2021 Rajeev Singh, Sandhya Singh, H No 320 Vill Dabua, Firoz Ghandhi Nagar, Block E Teh- Faridabad, Faridabad A/c No:- LBFDB00002396051 Flat No- A-1001, 10th Floor, Type-B, Tower A, Happy Homes, Sector 86, Faridabad 28/12/2021 25e/EE(G)/CPH/2021-22 for SITC of Mulsifier System with al No. AD/RSC-22/106/2015(Pt.-I)/273 Rs. 11,89,405/accessories including dismantling at Chibro Power House by the office of Dated : 01.02.2022 Executive Engineer (G) Chibro Power House is hereby extended as Savya Saachi Raina, Veenta Raina, Monjish Ranjan Nandi, Gh 5 & 7, Flat No-804, Paschim Vihar, Delhi A/c Applications are invited from Indian Nationals for Plot No 114, Ground Floor, Block- D, Classic 28/12/2021 follows Rs. 20,68,170/engagement of 01 (One) Chief Manager (Business Personal Floor, South City-II, Gurgaon Last date of submission of bid in the portal: 15-02-2022 up to 17:00 No:- LBGUR00001193760 Development & Trade Promotion) on contractual basis Last date of submission of hard copy: 17-02-2022 from 15:00 Hrs. Praveen Kumar Sharma, Jyoti Devi, Pradeep Kumar, 28/12/2021 Flat No F-1004, 10th Floor, R of Ananda, Tower- F, Date of opening of the bid Part-I on website: 19-02-2022 from 10:00 in Paradip Port Trust. For further details, visit our website Ganga Technomech Engineers, H No 305/318, Near Hanuman Mandir, Garoli Khurd 106, Gurgaon A/c No:- LBGUR00004131587 Rs. 13,02,441/-Sector 95, Gurgaon All other condition shall be same as previous. Further details can be seen www.paradipport.gov.in. from the e-procurement portal "http://uktenders.gov.in" Sr. Asst. Secretary PPT/PR/146/21-22 Dt. 04.02.2022 EE(G).Chibro Geeta Gupta,om Dutt Gupta, G 5 Ground Floor, Mcd Flats, Dhaka Colony, Dr Mukherjee Nagar, North West Delhi, Delhi A/c No:- LBNOD00004880657 Flat No 0302, Khasra No 1015, Block 3 (Part J), 3rd Floor, Nilaya Greens 1023/1 1023/2 1023 Min, 28/12/2021 "AVOID WASTEFUL USE OF ELECTRICITY" 04/10/ Rs. 14,37,250.99/-Village Morta, Pargana Jalalabad, Ghaziabad Mahesh., Savita., Mohalla Gohare Chandhat 172, Palwal Haryana, Palwal A/c No:- LBPLW00005316174 APPENDIX IV 28/12/2021 कार्यालय कार्यपालन अभियंता, 31/12 Flat No D 7502, 1st Floor, D Block, Village Shahpur Rs.19,70,957/- 2020 [See rule 8 (1)] The Park, Tehsil Tijara, Rajasthan, Bhiwadi लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड कोण्डागांव POSSESSION NOTICE Naitan Bajaj, Vijay Kumar, Black Riders Advertising Pvt Ltd, H No-380, 3rd Floor, Pocket-1, Phase-1 Dda Sfs Flats Flat No 2703, 27 Floor, Block 2, Imperia Mirage, Plot No Gh F-3, Sector 25, Jaypee Greens Sports City, Gautam Budh Nagar, Sdz Noida, Noida 31/12/2021 04/10/ (for immovable property) जिला कोण्डागांव (छ.ग.) Rs. 10,57,835/-Sec-22 Dwarka, Delhi A/c No:- LBDEL00002268454 (Phone no. 07786-296071, E-mail Id - eekon-phe-cg@gov.in Anand Prakash, Anju Sharma, 328, Shahpur Jat Village New Delhi, Delhi A/c No:- LBDEL00002376530 31/12/2021 04/10/ Rs.11,23,606/- 2021 Flat No 35, Third Floor, Block F3, Pocket 3, Sector The undersigned being the Authorized Officer of INDIABULLS HOUSING 34 Rohini, Delhi // ः ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना ः// FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitisation Girish Kumar,bhawna., 329 4th Floor 4, Marla Model Town Gurgaon A/c No:- LBDEL00005364895 Prop- 117, House No R 27, Ara Machine Wali Gali, Bharat Nagar, Khewat No:- 154, Khatoni 208, Khasra No 213/1/2/1, Rakba No 266, Bhiwani, Haryana 31/12/2021 04/10/ छत्तीसगढ़ की राज्यपाल की ओर से कोण्डागांव में एकीकृत पंजीयन and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. Rs. 21,86,598/-प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of 04/10/ 2021 कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती हैं:-the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated Durgesh Thakur, Pinki Thakur, House No-135, Ward No-8 Flat No- A7-704, Floor-7 Tower A7, Habitat 78, 31/12/2021 Bania Wara, Ballabgarh, Faridabad 13.09.2021 calling upon the Borrower(s) KAPIL BAJAJ, KAPIL BAJAJ ; V-20, Sector-78 Faridabad, Haryana Rs. 15,71,918/-कार्य का नाम :-- जल जीवन मिशन अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में रेट्रोफिटिंग A/c No:- LBFDB00004965177 RED CROSS ROAD, MIE PART B, BHADURGARH, HARYANA - 124502, /एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना कार्य। Mool Chand Sharma, 74 Khatiy 31/12/2021 Flat No C/010, Floor 0.1, Block C, SPLS Aawasiya ada Dankaur, Gautam

कार्य की

Rupee logs 1st gain in four days Mumbai: The rupee snapped its three-day losing streak by recovering 19 paise to close at

74.69 against the US dollar on Friday tracking weaker greenback against key rivals overseas.

At the interbank forex market, the local unit opened strong at 74.71 against the greenback and witnessed an intra-day high of 74.68 and a low of 74.77

It finally settled at 74.69, a rise of 19 paise over its previous close. PTI

SHAMMA BASAS, 505, VIKAT AFF, MITAWALI NAGAR, N.S. ROAD, FASCI	mun l
VIHAR, NEW DELHI, DELHI - 110083, PARVEEN ; 61-A, BANK WALI GA	ALI,
BUDHANPUR, MAJRA DABAS, NEW DELHI, DELHI - 110081 to repay	the
amount mentioned in the Notice being Rs. 35,68,903.29 (Rupees Thirty F	ive
Lakh(s) Sixty Eight Thousand Nine Hundred Three And Paise Twenty N	ine
Only) against Loan Account No. HHLRHN00238791 as on 25.06.2021 and inte	line rest
thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.	
	. I B

The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 02.02.2022.

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs.35.68,903.29 (Rupees Thirty Five Lakh(s) Sixty Eight Thousand Nine Hundred Three And Paise Twenty Nine Only) as on 25.06.2021 and interest

The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

FLAT NO. 606, SIXTH FLOOR, LIBERTE TOWER, OMAXE NORTH AVENUE, VILLAGE SANKHOL & BAHADURGARH, SECTOR-15, DISTT-JHAJJHAR, BAHADURGARH, HARYANA-124510.

Date : 02.02.2022	Authorised Officer	Ro. No:- 67524/6
Place: JHAJJHAR	INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED	Ro. Date:- 04/02/2022

कार्य का नाम निविदा एवं दिनांक अनुमानित लागत क्रमांक (रू0लाख में 2 3 3 -5 01 217/01.02.2022 92023 बहीगांव एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना 242.03 02 218/01.02.2022 92024 कुल्हाड़गांव एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना 90.52 03 219/01.02.2022 92025 झाटीबंद एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना 121.10 04 220/01.02.2022 92027 करनपुर रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना 85.07 05 221/01.02.2022 92029 बीजापुर रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना 56.85 06 222/01.02.2022 92035 पतोडा एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना 89.92 07 223/01.02.2022 92036 चुरेगांव एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना 64.89 08 224/01.02.2022 92038 बरकई एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना 110.82 09 225/01.02.2022 92039 तोरेंगा रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना 60.59 10 226/01.02.2022 92043 बालोण्ड रेटोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना 101.69 1 227/01.02.2022 92045 मांझीबोरण्ड रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना 103.33 12 228/01.02.2022 92049 काटागांव रेट्रोफिटिंग नलजल प्रदाय योजना 99.09 13 229/01.02.2022 92051 छोटेराजपुर एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजना 109.98 निविदा की सामान्य शर्ते, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है, साथ ही यह जानकारी ई-प्रोक्यूरमेंट बेव पोर्टल http://cgeprocurenent.gov.in पर तथा विभागीय बेक्साईट http://phedceaprocurenent.gov.in सं डाउनलोड की जा सकती हैं। डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 14.02.2022 है हस्ता / कार्यपालन अभियंता o. No:- 67524/6 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड

PERFECTPAC LIMITED

Sd/-

Regd. Office: 910, Chiranjiv Tower-43, Nehru Place, New Delhi - 110019 Phone No.: 011-26441015-18, Website: www.perfectpac.com Email: complianceofficer@perfectpac.com, CIN No.: L72100DL1972PLC005971

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021 (Rs. In lakhs except EPS)

		Quarter Ended		Nine Mont	hs Ended	Year Ended
PARTICULARS	31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Revenue from operations	2336.13	2245.81	1703.85	6331.50	4125.91	6590.14
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	15.40	77.17	48.20	80.44	32.98	107.78
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	15.40	77.17	48.20	80.44	32.98	107.78
Net Profit / (Loss) for the period after tax and Exceptional items	2.20	55.60	35.19	50.88	19.75	77.17
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2.20	55.60	35.19	50.88	19.75	81.58
Equity Share Capital	133.26	133.26	133.26	133.26	133.26	133.26
Earnings Per Share of Rs. 10/- each 1. Basic (Rs.) 2. Diluted (Rs.)	0.17 0.17	4.17 4.17	2.64 2.64	3.82 3.82	1.48 1.48	5.79 5.79

NOTES:

The above unaudited financial results were, subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record b

the Board of Directors at its Meeting held on February 04, 2022. The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2021, filed with the Stock Exchanges under Regulation 30 of the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2021 along with review report of the Statutory Auditors is available under the investor section of our website at www.perfectpac.com and on the website of the stock changes i.e. www.bseindia.com and www.cse-india.com

For Perfectpac Limite Sanjay Rajgarhia

Managing Director DIN: 00154167

कोण्डागांव (छ.ग.

17.	Mool Chand Sharma, 74 Khatiyapada Dankaur, Gautam Buddha Nagar, Dankaur, Uttar Pradesh, Bulandshahar A/c No:- LBGHZ00005135066	Flat No C/010, Floor 0.1, Block C, SPLS Aawasiya Yojna Village, Khushlya Pargana Dasna Tehsil And District Ghaziabad	31/12/2021 Rs. 25,18,561/-	04/10/ 2021
18.	Sanjay Drall, Poonam., H No 37812 Biswa, Choti Mata Mandir, Gurgaon A/c No:- LBGUR00003296834	Flat No 201, 2nd Floor, Tower C3, Delight Residences, Tapukara, Bhiwadi	31/12/2021 Rs.14,85,819/-	04/10/ 2021
19.	Ajay Singh, Horizon Tours and Travels, Attar Singh Pundeer, Kanwer Singh, FB-188, HIG, Sec-4 Lajpat Nagar, Ghaziabad A/c No:- LBDEL00001568029	Fb-188, Lajpat Nagar, Sahibabad, Ghaziabad	01/01/2022 Rs. 3,86,371/-	30/04/ 2021
20.	Ajay Singh, Horizon Tours And Travels, Attar Singh Pundeer, Kanwer Singh, Fb-188, Hig, Sec-4 Lajpat Nagar, Ghaziabad A/c No:- LBDEL00005249359	Fb-188, Lajpat Nagar, Sahibabad, Ghaziabad	01/01/2022 Rs. 10,75,837/-	11/05/ 2021
21.	Shiv Ram, Sudesh Kumari, 1 Ua, 2nd Floor, Jawahar Nagar, Kamla Nagar, Delhi A/c No:- LBDEL00001511427	Flat No- 1-ua, Second Floor, Jawahar Nagar, Nr. Punjab & Sindh Bank, Nr. Hansraj College, Delhi	01/01/2022 Rs.8,11,801.08/-	31/01/ 2021
22.	Gulab Singh, Savita Devi, H. No-433, Ashoka Enclave-3, Ward No-15, Sect-35, Village Sarai Khawaja, Faridabad A/c No:- LBDEL00001943880	House No- 433, Ashoka Enclave, Sector-35, Faridabad, Faridabad	01/01/2022 Rs. 5,24,045/-	10/06/ 2021
23.	Gulab Singh, Savita Devi, Flat No- 433, Ashoka Enclave Part- 3, Sector- 35, Near Sarai, Faridabad A/c No:- LBDEL00000945884	Plot No 433, Ashok Enclave-3, Village Sanai Kharaja, Faridabad	01/01/2022 Rs. 1,66,594.5/-	28/02/ 2021
24.	Kapil Dang, Kanta Devi, 53 55 1st Floor Pocket E 16 Sec 08, Rohini, Delhi, Delhi, A/c No:- LBDEL00004807343	Joda Prop No-53-55, 1st Floor, Block E-16, Sector- 08 Rohini, Delhi	31/12/2021 Rs.16,87,436.7/-	30/06/ 2021
25.	Kapil Dang,kanta Devi, 53 55 1st Floor Pocket E 16 Sec 08, Rohini, Delhi, Delhi, A/c No:- LBDEL00004808769	Joda Prop No-53-55, 1st Floor, Block E-16, Sector- 08 Rohini, Delhi	31/12/2021 Rs.10,81,937.3/-	30/06/ 2021
26.	Diwakar Kumar, Pallavi Kumari, House No C 30 A, Freedom Fighter Enclave, Ignou Road Nr Gate No 3, Delhi, A/c No:- LBFDB00002091891	H No 2392-P, Ground Floor, Aravali Vihar, Sector-49, Faridabad	31/12/2021 Rs. 12,07,435/-	31/08/ 2020
27.	Diwakar Kumar, Pallavi Kumari, House No C 30 A, Freedom Fighter Enclave, Ignou Road Nr Gate No 3, Delhi, A/c No:- LBFDB00002089814	H No 2392-P, Ground Floor, Aravali Vihar, Sector-49, Faridabad	31/12/2021 Rs. 26,92,533.7/-	31/08/ 2020
28.	Niraj Sharma, Rakesh Kumar Sharma, House No D 250 Sector 12, Pratap Vihar, Ghaziabad, A/c No:- LBGHZ00004449519	Flat No 3 G-403, 4th Floor, Nilaya Greens- Block 3, (Part G), Khasra No 1015,1023/1,1023/2, Min Village Morta Pargana, Jalalabad Tehsil and District Ghaziabad	31/12/2021 Rs. 13,13,651/-	06/04/ 2021
29.	Niraj Sharma, Rakesh Kumar Sharma, House No D 250 Sector 12, Pratap Vihar, Ghaziabad, A/c No:- LBGHZ00005240430	Flat No 3G-403, 4th Floor, Nilaya Greens- Block 3, (Part G), Khasra No 1015,1023/1,1023/2, Min Village Morta Pargana, Jalalabad Tehsil and District Ghaziabad	31/12/2021 Rs. 38,660/-	06/04/ 2021
30.	Panchsheel Gautam, Sonia Gautam, B-1034 MIG Flats, East of Loni Road, Delhi, A/c No:-LBNOD00002422242	Flat No 1207, 12th Floor, Tower-T4, Block B Unibera Towers, Plot No- Gh-16f, Sector-1, Greater Noida, Noida	31/12/2021 Rs. 20,04,184/-	07/06/ 2021
31.	Panchsheel Gautam, Sonia Gautam, B-1034 MIG Flats, East of Loni Road, Delhi, A/c No:-LBGHZ00004868725	Flat No 1207, 12th Floor, Tower- T4, Block B Unibera Towers, Plot No- Gh-16f, Sector-1, Greater Noida, Noida	31/12/2021 Rs. 73,752/-	07/06/ 2021
32.	Vivek Gupta, Sharda Devi, Flat No 03 Second Floor, Rehman Layout Jijau Nagar, Amravati, A/c No:- LBNOD00004978909	Flat No-1501, Migsun Wynn, Tower-2, 15th Floor, Sector- Eta-2, Noida	31/12/2021 Rs. 15,66,233/-	06/04/ 2021
33.	Vivek Gupta, Sharda Devi, Flat No 03 Second Floor, Rehman Layout Jijau Nagar, Amravati, A/c No:- LBNOD00005113065	Flat No-1501, Migsun WYNN, Tower-2, 15th Floor, Sector- Eta-2, Noida	31/12/2021 Rs.1,07,469/-	06/04/ 2021
34.	Babita Malhotra, Anil Malhotra, House No 485, 3 Near Wilson Factroy, Nai Abadi Arjun Nagar, Gurgaon, A/c No:- LBGUR00002973428	Unit No 449, 4th Floor, JMD Megapolis, Sohna Road, Gurgaon	31/12/2021 Rs. 16,24,614.99/-	04/08/ 2021
35.	Babita Malhotra, Anil Malhotra, House No 485, 3 Near Wilson Factroy, Nai Abadi Arjun Nagar, Gurgaon, A/c No:- LBGUR00002973432	Unit No 449, 4th Floor, JMD Megapolis, Sohna Road, Gurgaon	31/12/2021 Rs. 9,42,069.99/-	04/08/ 2021
36.	Adesh Saxena, Kirti Saxena, E 1204 Tower E S G Grand, Raj Nagar Extn, Emerald Tower, Ghaziabad, A/c No:- LBGHZ00004928121	Bearing No E-1204, Floor 12th, Tower No E, (Emerald Tower) Sg Grand, Raj Nagar Extn, Nh 58, Ghaziabad	28/12/2021 Rs. 16,05,183/-	04/10/ 2021
37.	Adesh Saxena, Kirti Saxena, E 1204 Tower E S G Grand, Raj Nagar Extn, Emerald Tower, Ghaziabad, A/c No:- LBGHZ00004928125	Bearing No E-1204, Floor 12th, Tower No E, (Emerald Tower) Sg Grand, Raj Nagar Extn, Nh 58, Ghaziabad	28/12/2021 Rs. 5,16,913/-	04/10/ 2021
38.	Rajiv Lohia, Rakhi Lohia, A 97 Lohiya Nagar Near, Naya Gaziabad Railway, Station Gaziabad (UP), Ghaziabad, A/c No:- LBDEL00001174477	A-97, Lohia Nagar, Sector-8, Ghaziabad	04/01/2022 Rs. 4,03,879/-	11/06/ 2021
39.	Rajiv Lohia, Rakhi Lohia, A 97 Lohiya Nagar Near, Naya Gaziabad Railway, Station Gaziabad (UP), Ghaziabad, A/c No:- LBDEL00001894921	A-97, Lohia Nagar, Sector-8, Ghaziabad	04/01/2022 Rs. 23,711/-	11/06/ 2021
pay	e steps are being taken for substituted service of notice. The a ments of outstanding within period of 60 days from the date of	of publication of this notice else further steps will be taken		
Dat	curitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforc te: February 05, 2022 ce: Delhi/ NCR	ement of Security Interest Act, 2002.	Authorized ICICI Bank I	



विदेश 📗

भारत के साथ संबंध अपनी खूबियों पर टिके हैं : अमेरिकी विदेश विभाग

🗕 रूस के साथ तनाव से प्रभावित नही होंगे भाषा। वाशिंगटन

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में यूक्रेन सीमा पर स्थिति को लेकर चर्चा में मतदान से अनुपस्थित रहने के कुछ दिन बाद अमेरिका के विदेश विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध अपनी विशेषताओं पर आधारित हैं और रूस के साथ जारी तनाव का इन पर असर नहीं पड़ा है। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बृहस्पतिवार को कहा, भारत के साथ हमारा रिश्ता

पर असर पडा है। इस सप्ताह दूसरी बार विदेश विभाग के प्रवक्ता ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर भारत के रुख से संबंधित सवालों के जवाब देने से परहेज किया। प्राइस ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने रुख पर चर्चा करने के लिए मैं इसे अपने भारतीय साझेदारों पर छोड़ देता हूं। प्राइस ने बृहस्पतिवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, रूस के सैन्य जमावड़े और यूक्रेन के खिलाफ उसकी अकारण संभावित आक्रामकता



के बारे में हमारी चिंताओं पर हम अपने भारतीय साझेदारों सहित दनिया भर के दर्जनों देशों के साथ संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि ए ऐसी बातचीत है जो अमेरिका विभिन्न स्तरों पर कर रहा है। अनुमान के अनुसार रूस ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में यक्रेन के साथ सीमा के पास करीब 1.00.000 सैनिकों को भेजा है. जिसे अपनी खुबियों पर टिका है। प्राइस से लेकर पश्चिम के देशों ने कडी यह पूछा गया था कि क्या यूक्रेन संकट चेतावनी दी है और कहा है कि रूस को लेकर रूस के साथ तनाव के आक्रमण करने का इरादा रखता है। कारण भारत के साथ अमेरिकी संबंधों रूस ने बार-बार इस बात से इनकार किया है कि वह युक्रेन पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। हालांकि, रूस मांग कर रहा है कि नाटो युक्रेन को कभी भी सैन्य गठबंधन में शामिल होने की अनुमति नहीं दे और रूसी सीमाओं के पास नाटो हथियारों की तैनाती को रोकने तथा पूर्वी यूरोप से अपनी सेना को वापस लेने का वादा करे। अमेरिका और नाटो ने रूस की मांगों को खारिज कर दिया है लेकिन रूस की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और संकट को

अमेरिका ने चीन की आक्रामकता के खिलाफ भारत के प्रति एकजुटता व्यक्त की

वाशिंगटन। अमेरिका ने कहा है कि वह चीन की आक्रामकता के खिलाफ भारत के साथ खडा है। वाशिंगटन की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब चीन ने शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक के लिए उस सैन्य अधिकारी को मशाल वाहक बनाया है जो 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला करने वाले चीनी सैनिकों में शामिल था। चीन ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ जून 2020 की झड़प में शामिल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के एक रेजिमेंट कमांडर को बीजिंग ओलंपिक के लिए बुधवार को मशाल वाहक के रूप में उतारा। इस पर भारत ने शुक्रवार से शुरू हो रहे इस खेल कार्यक्रम के उद्घाटन के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बृहस्पतिवार को एक दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, जहां तक बात भारत-चीन सीमा विवाद की है, हम सीधे संवाद और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करना जारी रखेंगे। हमने पहले भी अपने पड़ोसियों को डराने-धमकाने के चीन के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम दोस्तों के साथ खडे हैं।

इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा, किया कि शांत और रचनात्मक जैसा कि मैंने पहले एक अलग संदर्भ कूटनीति समय की आवश्यकता है और रेखांकित किया कि अंतरराष्ट्रीय में कहा था कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता और युक्रेन पर शांति एवं सुरक्षा हासिल करने के रूसी आक्रमण का उसके आस पास व्यापक हित में सभी पक्षों द्वारा तनाव के देशों से परे सुरक्षा वातावरण पर बढ़ाने वाले ऐसे किसी भी कदम को असर पड़ेगा। चाहे वह चीन हो या टाला जा सकता है। बैठक से पहले. भारत अथवा दुनिया भर के देश, रूस ने यह निर्धारित करने के लिए इसके प्रभाव दूरगामी होंगे और मुझे एक प्रक्रियात्मक वोट का आह्वान किया। अमेरिका के अनुरोध पर हुई लगता है कि सभी इसे लेकर व्यापक समझ रखते हैं। भारत सोमवार को बैठक को आगे बढाने के लिए परिषद यूक्रेन सीमा को लेकर स्थिति पर को नौ मतों की आवश्यकता थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा के भारत, गैबॉन और केन्या वोट से दूर लिए बैठक से पहले प्रक्रियात्मक वोट रहे, जबकि रूस और चीन ने इसके कम करने के लिए आगे बातचीत से से अनुपस्थित रहा और रेखांकित खिलाफ मतदान किया।

संयुक्त अरब अमीरात पर यमन विद्रोहियों का हमला भारतीय परिवारों के लिए बना त्रासदी

<u>भाषा। अबू धाबी</u>

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अब धाबी में पिछले महीने यमन के हौती विद्रोहियों की ओर से किए गए हमलों के कारण भारतीय भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। भारतीय मूल के टूक चालक रामजन रथ ने उस हादसे को याद करते हुए कहा पहले तो विस्फोट की आवाज सुनाई दी और कुछ पलों के लिए सब कुछ बिखर गया। इसके बाद उन्होंने देखा कि उनके पैरों में भी आग लगी हुई है। रामजन ईंधन से भरा ट्रक चलाते हैं। उन्होंने ड्रोन हमले वाले दिन को याद करते हुए कहा कि उनके सामने ही उनका टुक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। रामजन ने मुसाफाह में भारतीय कैंटीन के पास एसोसिएटेड प्रेस से बातचीत के दौरान यह बात कही। यह हमला औद्योगिक शहर अब धाबी में एक सरकारी तंय संयंत्र के पास हुआ था।



We. Kotak Mahindra Bank Limited, (KMBL), for our Bank branch and other relate usiness, (including setting up Automated Teller Machine -ATM), desire to take or ease for the period of 18 (Eighteen) years the property, more particularly described in he schedule hereunder written, owned by owners as mentioned herein below Public at large and all the concerned, private individuals, government/ semi-govern

nstitutions / bodies / authorities, if have got any right, title, interest, or share in the propert ein mentioned or anybody who has objection for the aforesaid transaction are herew ublicly informed to raise his/her/their objection/s in writing with copies of all the supportion documents to the undersigned within 7 (Seven) days from publication of this public notice f the objections are not received by the undersigned in writing along with copies of a supportive documents within 7 (Seven) days from publication of this public notice, then i will be construed that the title to the said property are clear and that all such concerne ave waived their rights and all such concerned shall be estopped from raising an objections thereafter and that we shall proceed thereafter further in the execution of th ase Deed or such agreements and all such persons shall be estopped from raising any objections to such transaction thereinafter

Description of the Property to be taken on Lease	Owner
ALLTHAT the piece and parcel of Commercial Property being unit no. 207 admeasuring 3263.90 sq. ft. approx Super Area on Second floor Situated and located in the building known as "Sewa Corporate Park" at M.G. Road, revenue state of Sirbaul Joheil and District Gurgaon, Havana, 122001	Having Residence at: 61, Block-G, Laipat

Legal Department

Kotak Mahindra Bank Limited Kotak Infinity, 5th Floor, Building No.21, Infiniti Park, off Western Express Highway,

General A K Vaidva Marg, Malad (East), Mumbai 400097



लंदन में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर का उद्घाटन हुआ, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय रविवार 6,फरवरी 2022 को सिंहासन पर 70 साल पूरे करेंगी, एक अभूतपूर्व शासन जिसने उन्हें स्थिरता का प्रतीक बना दिया है

KOTAK MAHI C kotak PUBLIC NOTICE

We. Kotak Mahindra Bank Limited, (KMBL), for our Bank branch and other relate business, (including setting up Automated Teller Machine -ATM), desire to take or Lease for the period of 18 (Eighteen) years the property, more particularly described in the schedule hereunder written, owned by owners as mentioned herein below. Public at large and all the concerned, private individuals, government/ ser government institutions / bodies / authorities, if have got any right, title, interest, o share in the property herein mentioned or anybody who has objection for the aforesaid transaction are herewith publicly informed to raise his/her/their objection/: in writing with copies of all the supportive documents to the undersigned within (Seven) days from publication of this public notice. If the objections are not received by the undersigned in writing along with copies of all supportive documents within 7 Seven) days from publication of this public notice, then it will be construed that the title to the said property are clear and that all such concerned have waived their rights and all such concerned shall be estopped from raising any objections thereafter and that we shall proceed thereafter further in the execution of the Lease Deed or such agreements and all such persons shall be estopped from raising any objections t uch transaction thereinafter

Description of the Property to be taken on Lease	Owner		
LL THAT the piece and parcel of Commercial roperty being unit no. 8 and 9 admeasuring 0576 sq. ft. Super Area on ground and rezzanine floor Situated and located in the uilding known as "Sewa Corporate Park" at 1.G. Road, revenue state of Sirhaul, Tehsil and histrict Gurgaon, Haryana-122001	(Owner shop no. 9) Mr. Sajal Jain S/o Sh. Suresh Kumar Jain (Owner shop no. 8) Having Residence at:		

Kotak Mahindra Bank Limited. Kotak Infinity, 5th Floor, Building No.21, Infiniti Park, off Western Express Highway General AK Vaidya Marg, Malad (East), Mumbai 400097

रिांगापुर में भारतीय मूल की महिला को जेल

सिंगापुर। सिंगापुर में कोविड-१९ संबंधी प्रतिबंधो एवं नियमो क उल्लंघन करने के आरोप में भारतीय मूल वी एकमहिला वो १० सप्ताह करावास की सजा सुनाई गई है। महिला पर आरोप है कि वह शराब पीने के लिए कई बार अपने घर से बाहर निकली और दोस्तो से भी मिली। लेचिमी (37) नामक महिला को बुहस्पतिवार को कोविड -१९ (अस्थाई उपाय अधिनियम) के तहत तीन आरोपों में दोषी टहराया गया। समाचार पत्र द स्ट्रेटस टाइम्स की एकरिपोर्ट के अनुसार सजा सनाते समय लेचिमी पर लगे सात आरोपो पर विचार किया गया। डीपीपी केनेथ की ने अदालत मे कहा कि लेचिमी ने पांच अप्रैल से 21 मई 2020 के बीच छह नियमो क उल्लंघन किया और पुलिस अधिकारियो ने उसे पकड़ा।

भारत में सी-सूट शिखर सम्मेलन 17 जून से

तालिबान के कब्जे के छह महीने बाद भी अफगानिस्तान की स्थिति अनिश्चित

बाद भी अफगानिस्तान में स्थिति

क्योंकि कई राजनीतिक, सामाजिक-

आर्थिक और मानवीय झटकों से देश

अब तक उबर नहीं पाया है। तालिबान

खुद को कार्यवाहक सरकार के रूप में

पेश करने का प्रयास कर रहा है।

🗕 संयुक्त राष्ट्र

में दी जानकारी

भाषा। संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एक रिपोर्ट में कहा है कि तालिबान के कब्जे के करीब छह महीने बाद भी अफगानिस्तान में स्थिति अस्थिर और अस्थिर और अनिश्चित बनी हुई है, अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि युद्ध से तबाह देश राजनीतिक, सामाजिक-आर्थिक और मानवीय झटके से उबरा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गतारेस ने अफगानिस्तान की स्थिति और अंतरराष्टीय शांति और सुरक्षा के लिए इसके निहितार्थ पर गठन नहीं किया गया है, जो कि देश अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्थिरता और की जातीय, राजनीतिक

रचनात्मक जुड़ाव के बिना, आर्थिक स्थिति खराब ही रहेगी। हालांकि. अभी तक शासन ढांचे का 16 प्रांतों में इस्लामिक स्टेट लेवेंट-और 150 से अधिक हमले दर्ज किए हैं, भविष्य में अंतरराष्ट्रीय समर्थन को भौगोलिक विविधता को दर्शाए और जो कि 2020 में इसी अवधि में किए बढ़ावा देने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह जिसमें महिलाएं शामिल हों। गए हमलों से लगभग आठ गुना

पूर्ण वापसी के दो सप्ताह पहले ही महासचिव ने एकरिपोर्ट तालिबान ने 15 अगस्त को

अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। गुतारेस ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सार्थक, लचीले और अफगानिस्तान में मानवीय और संयक्त राष्ट ने पिछले साल अगस्त और दिसंबर के बीच इराक में इस्लामिक स्टेट और अफगानिस्तान के खुरासन (आईएसआईएल-के) द्वारा होगा कि अपने पूर्व के कृत्यों को ना संसाधनों और क्षमता की कमी के अधिक है। 19 अगस्त से 31 दिसंबर 2021 के बीच संयुक्त राष्ट्र ने

अफगानिस्तान के 16 प्रांतों में

आईएसआईएल-के द्वारा 152 हमले

टीके की बूस्टर खुराक ओमीक्रोन

रवरूप के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा

कोविड-रोधी टीके की तीन खुराक

ले चुके लोगों में उच्च-गुणवत्ता वाली

एंटीबॉडी विकसित होती है जोकि कोरोना वायरस के नए स्वरूप

ओमीक्रोन के खिलाफ प्रभावी सरक्षा

प्रदान कर सकती है। एक अध्ययन में

यह बात कही गई है

अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक, तीन

बार वायरस से संक्रमित होने वाले

लोगों और संक्रमणमुक्त होने के बाद

टीके की दो खराक लेने वालों पर भी

यह बात लागू होती है। नेचर मेडिसिन

में हाल में प्रकाशित इस अध्ययन के

दौरान टीके की दोनों खुराक ले चुके

लोगों और संक्रमण की चपेट में आने

के बाद स्वस्थ हुए मरीजों में विकसित

एंटीबॉडी की निगरानी की गई।

दे सकती है: अध्ययन

भाषा। बर्लिन

दर्ज किए।

PERFECTPAC LIMITED

Regd. Office: 910, Chiranjiv Tower-43, Nehru Place, New Delhi - 110019 Phone No.: 011-26441015-18, Website: www.perfectpac.com Email: complianceofficer@perfectpac.com, CIN No.: L72100DL1972PLC005971

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER

AND NINE MOI	NTHS EN	DED DECI	EMBER 31	, 2021	(Rs. In la	khs except EPS)	
	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended	
PARTICULARS	31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
Total Revenue from operations	2336.13	2245.81	1703.85	6331.50	4125.91	6590.14	
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	15.40	77.17	48.20	80.44	32.98	107.78	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	15.40	77.17	48.20	80.44	32.98	107.78	
Net Profit / (Loss) for the period after tax and Exceptional items	2.20	55.60	35.19	50.88	19.75	77.17	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2.20	55.60	35.19	50.88	19.75	81.58	
Equity Share Capital	133.26	133.26	133.26	133.26	133.26	133.26	
Earnings Per Share of Rs. 10/- each 1. Basic (Rs.) 2. Diluted (Rs.)	0.17 0.17	4.17 4.17	2.64 2.64	3.82 3.82	1.48 1.48	5.79 5.79	

NOTES dited financial results were, subjected to limited review by the Statu

मुंबई, बैंगलोर। नूट्रीफी टुड दुनिया का पहला एआई-पावर्ड न्युट्रास्युटिकल प्लेटफ ॉर्म न्यूट्रीफाई सीसूट समिट लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।यह न्यूट्रास्युटिकल इंडस्ट्री डेवलपमेंट इवेंट १७ जून २०२२ को ताजमहल पैलेस मुंबई में होने जा रहा हैं और इसके साथ ही यह एशिया-डंडो-यएस) हाईवे की नीव रखेगा। शिखर सम्मेलन अपने न्यूट्रास्युटिकल उद्योग को अन्य सदस्य देशों के साथ एशिया-इंडो-यूएस हाईवे में सामंजस्यपूर्ण नीतियों का उपयोग करके आसानी से व्यापार करने का मौका देगा, एवं बाजार तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगा। १०० बिलियन अमरीकी डालर के साथ वैश्विक न्यूट्रास्युटिकल उद्योग के विकास में एक डेल्टा जोड देगा। यह दुनिया का अपनी तरह का पहला आयोजन है, जो खरीदारों व प्रमख कंपनियो के वरिष्ठ अधिकारियों व पमख सरकारी नेताओं के साथ-साथ आसियान देश, भारत और अमेरिका को एक साथ लाएगा। समिट के बारे में मुख्य उत्प्रेरक अमित श्रीवास्तव ने जानकारी दी।

सैन्य कार्यवाही पर विचार नहीं : प्रधानमंत्री टूडो

ओटावा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टुडो ने ब्रहस्पतिवार को कहा कि कोविड-१९ महामारी की रोक्थाम के लिए उठाए गए कदमो के विरोध में हो रहे प्रदर्शनो पर सैन्य कर्यवाही क फिलहाल कोई विचार नही है। ओटावा के पुलिस प्रमुख पीटर स्लोली ने इस सप्ताह कहा था कि देश में जारी प्रदर्शनों को समाप्त कराने के लिए सभी विकल्प खुले है,जिसमें सेना वी मदद भी शामिल है। हजारो वी संख्या में प्रदर्शनकरियों ने पिछले सप्ताह संक्रमण रोधी टीक लगवाने और अन्य पाबंदियों केविरोध में पार्लियामेट हिल्स के आसपास जाम लगा दिया था।

हांगकांग का कार्यकर्ता गिरफ्तार

हांगकांग। हांगकांग के एक वरिष्ठ कर्यकर्ता को शुक्रवार को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया, जब उसने शहर मे सरकरी कर्यालयों के बाहर बीजिंग शीतकलीन ओलंपिक क विरोध करने वी योजना वी घोषणा वी। स्थानीय समाचार पत्र साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा कनून के तहत कार्यकर्ता कू स्ज़े-ईउ को उनके घर पर सुबह-सुबह गिरफ्तार कर लिया गया था।

दोहराते हुए तालिबान अलग-थलग साथ-साथ विचारधारा भी अंतरराष्ट्रीय पडने से बचे। गुतारेस ने अपनी रिपोर्ट मानदंडों के अनुरूप शासन व्यवस्था में कहा है कि तालिबान के सत्ता पर की दिशा में आड़े आ रही है। काबिज होने के लगभग छह महीने अमेरिकी सैनिकों की 31 अगस्त को

फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों मध्यस्थता के लिए रूस, यूक्रेन की यात्रा करेंगे भाषा। पेरिस

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रोकने और बढते तनाव का कम करने का राजनयिक तरीका ढूंढने के प्रयास के तहत अगले सप्ताह मास्को और कीव जाएंगे। मैक्रों की यह यात्रा सोमवार और मंगलवार को प्रस्तावित है। उनकी यह यात्रा



अमेरिका की ओर से बहस्पतिवार को लगाए गए इस आरोप के बाद होगी कि रूस अपने पडोसी यक्रेन की ओर से रूसी क्षेत्र पर हमला किए जाने की आशंका की आड़ में सैन्य हमला करने और क्षेत्र में युद्ध थोपने की साजिश रच रहा है। हालांकि अमेरिका ने अपने दावों के समर्थन में किसी तरह की विस्तत जानकारी नहीं दी है। यद्यपि फ्रांस नाटो का महत्वपूर्ण घटक है और रोमानिया पर रूस के हमले की आशंका के मद्देनजर गठबंधन की ओर से की जा रही तैयारी के तहत अपनी सेना भेज रहा है, लेकिन मैक्रों अपने रूसी समकक्ष के साथ संवाद की वकालत करते रहे हैं और खुद भी हाल के सप्ताह में पुतिन से कई बार बात की है। मैक्रों के कार्यालय ने शुक्रवार को बताया कि दोनों नेताओं के सोमवार को आमने-सामने की बैठक होगी।

लॉकडाउन केबीच पार्टी आयोजन मामले में पीएम जॉनसन के चार शीर्ष सहयोगियों का इस्तीफा

भाषा। लंदन

कोविड-19 संबंधी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में पार्टी के आयोजन पर विवादों में घिरे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के चार करीबी सहयोगियों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री की नीति प्रमुख मुनीरा मिर्जा, चीफ

ऑफ स्टाफ डैन रोजेनफील्ड, प्रमुख निजी सचिव मार्टिन रेनॉल्ड्स और संचार निदेशक जैक डॉयल सभी ने बृहस्पतिवार को कुछ घंटों के भीतर अपने पद छोड़ दिए। इससे पहले जांच में पता चला था कि देश में सख्त कोविड-19 लॉकडाउन नियमों के बीच डाउनिंग स्ट्रीट (प्रधानमंत्री कार्यालय) में कई पार्टियां आयोजित की गई थीं। बीबीसी की शुक्रवार की एक रिपोर्ट के अनुसार डॉयल ने मिर्जा के इस्तीफे के तुरंत बाद अपने इस्तीफे की भी पुष्टि की। इसके बाद रोजेनफील्ड और रेनॉल्ड्स ने भी इस्तीफा दे दिया। शीर्ष अधिकारियों का यह इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब जॉनसन (57) पार्टी के भीतर अपने नेतृत्व को लेकर बढ़ते सवालों का सामना कर रहे हैं।

RAMPUR FERTILIZERS LTD. CIN: L15136UP1988PLC010084 Email id- info@rampurfert.com Regd. Off.: Judges Bareilly Road, Rampur-244901 U.P.

NOTICE OF BOARD MEETING

In pursuance of Regulation 47 of SEBI (LODR) 2015, Notice is hereby given that the meeting of he Board of Directors will be held on Monday, the 14th February 2022, at 4:00 P.M. at its H.O.: 319-A, Hemkunt Chambers, 89 Nehru Place, New Delhi 110019, inter alia, to consider, approve and adopt unaudited Financial Results for the quarter ended on December 31st, 2021 pursuant to Regulation 33 of LODR. The said information is also available on the Company's website at www.rampurfert.com and the same has been also sent to CSE and MSE to upload on their websites i.e. www.cse-india.com, www.msei.in respectively. By order of Board

	201-
ace: New Delhi	Rajeev Kumar
ate: 04.02.2022	(Company Secretary)

L	the Board of Directors at its Meeting held on February 04, 2022.	
2	2. The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2021, filed with th	e Stock Exchanges under
1	Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Financial Results for the	
L	ended December 31, 2021 along with review report of the Statutory Auditors is available under the investor section of our website at www.perfectpac.com and	I on the website of the stock
L	exchanges i.e. www.bseindia.com and www.cse-india.com	For Perfectpac Limited
L		
Ι.		Sanjay Rajgarhia
P	Place : New Delhi	Managing Director
D	Date : 04.02.2022	DIN: 00154167

सार्वजनिक सूचना

CICICI Bank शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लि., तृतीय तल, प्लॉट नंबर 23, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली–110005

1000 विजान sunness नेम्नलिखित कर्जदार/रों ने उनके द्वारा बैंक से प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के मुलघन और ब्याज के मुगतान में चूक की है और ये ऋण अनार्जक आस्तियों (एनपीए) के रू में श्रेणीबद्ध किए गए हैं। उनको, वित्तीय आस्तियों का प्रतिमूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिमूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की घारा 13 (2) के अधीन एक सूचना उनके अंतिम ज्ञात पतों पर प्रेषित की गई थी, हालांकि यह सुपुर्द नहीं की जा सकी और इसलिए एतद्द्वारा उनको इस सार्वजनिक सूचना द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है।

8. कर्जदार/स्तार नारंख्या प्रत्याप्त आसित / प्रातीं की जाने वाली आसित का (स्राप्त खाता संच्या) प्रत्याप्त आसित / प्रातीं की जाने वाली आसित का (स्राप्त खाता संच्या) गोध कुल का (स्राप्त खंगा का स्राप्त खंगा का (स्राप्त खंगा का स्राप्त खंगा का स्राप्त खंगा का वाला संच - 1000000000012) गोध कुल का का स्राप्त खंगा का स्राप्त ख	_				
1. सेन प्रकरम, रिव, सेनग / व. संच 1/6, सुसी कर, माइट डाउस, सकिया परिकन्दरा सूला, आगरा, उत्तार परेश भारत परेश			a	तिथि/सूचना की तिथि	एनपीए तिथि
वा परा रोग परिष राज्य रोग राज्य राज राज्य राज राज्य राज राज्य रोग राज्य राज राज राज राज राज राज राज राज राज राज राज राज राज राज राज राज राज राज राज राज	1.	रमेश मोजवानी, अनुराग वर्मा, एव नंबर 1/5, तृतीय तल, व्हाइट हाउस, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली,		₩.	
वे स्वर-11, वो रखे, आता संबर - Lus000000000000000000000000000000000000	2.	उत्तर प्रदेश खाता नंबर :– LBNOD00002072172		रू. 11,14,397.99 ∕ —	
भूतिट नंबर धार, बातु देश, मिलट हासी बात, मिलट प्रायं पाढ, मिलट हासी बात, मिलट हासी मार मात कुंगता के का कर	3.	सेक्टर−11, नोएडा, खाता नंबर :– LBN0000002090132		₩. 36,58,228/-	
1000 माझे मध्य राज करा हरा कर करा कर सारक कर मारक कर सारक कर मारक कर मा मारक कर मारक कर मारक कर मा कर कर मारक कर मारक कर मा	4.			₹. 35,00,913/-	
0. पुराव तर कर नाथ नाथ, गुद्ध २ कार पर, कार पर, कार पर,	5.			₩.	
 भाता नंबर :- LBN000000212819 मालागए वर्दरी, विमायल प्रदेग मुलिस उपनाल, सोनल राजाल, एव नंबर ए 134, निकट एनएगएस हॉसिएटल, आता नंबर :- LBN0000002470953 मुलिस उपनाल, देवलर - 30, गोएडा, उत्तर प्रदेश मालागए वर्दरी, विमायल प्रदेग मुलिस उपनाल, देवलर - 30, गोएडा, उत्तर प्रदेश मालागए वर्दरी, विमायल प्रदेग मुलिस उपनाल, देवलर - 30, गोएडा, उत्तर प्रदेश मालागए वर देश मालागए वर देश मालागए वर देश मालागए वर देश मालाग वर :- LBN0000002470953 मालागए वर देश मालागए वर देश मालागए वर देश मालागए वर देश मालाग वर :- LBN000000470956 मालागए वर देश मालाग वर :- LBN0000000470965 मालागए वर देश मालाग वर :- LBN000000470965 मालागए वर देश मालाग वर :- LBN0000000470965 मार करा मालाग वर :- LBN0000004709771 माला वर वर प्रते करा माला वर वर प्रते करा मालाग वर :- LBN0000004705771 माला विस प्रते प्रते करा करा माला विस प्रते प्रते करा करा मालाग वर :- LBN0000004705771 माला विस प्रते प्रते करा करा माला विस प्रते प्रते करा करा मालाग वर :- LBN0000004705771 माला विस प्रते प्रते करा करा माला विस प्रते करा करा माला विस प्रते प्रते करा प्रते करा करा मालाग वर :- LBN0000004705771 माला विस प्रते करा करा माला वर वर प्रते करा प्रते करा करा माला विस प्रते करा करा माला विस (माला करा करा माला विस (माला करा करा) करा मार करा प्रते करा करा माला विस (माला करा) करा माला विस (माला करा) करा माला विस (माला करा) करा मार करा माला मि	6.		A MARKET A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY A REAL PROPERTY A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY A REA	₩.	
0. पुनित अवसल, पान पर 1.44, निकट परप्रपत्र हासिस्टन, आरडब्ल प्रांत पर 111 ति. टीवर सी. मॉस्टाट साझ मंगर्स, आरबल परंग :– LBNO00002470953 9. सरफरण अखमर, केमल नॉस 2103, 2111 ति. टीवर सी. मॉस्टाट साझ मंगर्स, आरबल परंग :– LBNO00002470953 9. सरफरण अखमर, केमल नॉस 25, आगंद जनरत स्टोर के सामने, मौ भूराट नंबर धीएब 12, ईको सिटी, सेक्टर-75, गौरामयुद्ध नगर आरबल गंबर :– LBNO0000247095 10. मोहित सर्ज, संतोय सर्ज, ई–138, 104 एवेन्यू, गौड सिटी 2, गोएब, गौतमयुद्ध नगर आरबल गंबर :– LBNO00002470771 11. मोहित सर्ज, संतोय सर्ज, ई–138, 104 एवेन्यू, गौड सिटी 2, गोएब, गौतमयुद्ध नगर आरबल गंबर :– LBNO000004705771 12. आयुतोय कृमार निक्ष, स्वारी सिती, डो–138, केवर एवेन्यू, गौड सिटी 2, गोएब, गौतमयुद्ध नगर आरबल गंबर :– LBNO000004705771 13. केवन कृमार, नेता देवी, सी 428, पैरामयोट साल जीवन-1 के सामने, मोएड, जलर प्रदेश आता नंबर :– LBNO00000491525 14. सोनू वर्म, कोसांबी वर्म, युविट नंबर 319, एवंन्यू, सिती दिताय, गौर स्टूति क्यात नंबर :– LBNO00000491552 14. सोनू वर्म, कोसांबी वर्म, युविट नंबर 319, एवंन्यू, प्रति सिता जीटन-1 के सामने, मंदट नंबर आई–0, युविट नंबर आएव, संतर प्रदेश, नंबर आएव, स्वार्य, स्वार्य, तिवा टाइप 1, सॉट नंबर जीएवा -0, सेतटर 2, युव्ट मंदर, 317, 2021 2020 2021	7.			₩.	
9/10. कित्रा हॉसिपटत के कीछे, सेक्टर-35. गोएडा. प्लॉट नंबर जीएच 12, ईको सिंटी, सेक्टर-75. गीतमबुद्ध नगर 8. 2021 10. मोहत वर्ग, संतोष वर्ग, ई-138. 10वा एवेन्यू, गौढ़ सिटी 2. नोएडा. गोतमबुद्ध एलॅट नंबर 1554. 14वां तल, टावर जी, संस्कृति विहार, गौड़ सिटी 18-09-2021 9.53.126/- 2021 11. मोहत वर्ग, संतोष वर्ग, ई-138. 10वा एवेन्यू, गौढ़ सिटी 2. नोएडा. गोतमबुद्ध नगर एलॅट नंबर 1554. 14वां तल, टावर जी, संस्कृति विहार, गौड़ सिटी 18-09-2021 06/05/ 12. आत्राजोब कुमा. है-138. 10वा एवेन्यू, गौढ़ सिटी 2. नोएडा. गोतमबुद्ध नगर एलॅट नंबर 1554. 14वां तल, टावर जी, संस्कृति विहार, गौड सिटी 08-09-2021 2021 2021 12. आत्राजोब कुमा. है-138. 10वा एवेन्यू, गौढ़ सिटी 1 विहार, नोकट कुट वर्ग के संस्कृति विहार, गौड सिटी 08-09-2021 06/05/ 2021 13. केवत कुमार. केदा देरी, सी 425. पैरामाउंट गोरक फोरेस्टी विहा जीटा-1 के साग-ो. एलेंट नंबर आई-09. मू तल, टावर–आई, अजनारा पैनोरामा लंदन कर कर कर का कार्ग रेडा. राजेर तंबर अध्र. जारवा तंबर : LBN0000004941552 08-09-2021 8. 09/06/ 14. सोनू वर्ग, कीशांठी वर्ग, गूनिट नंबर 2102. टावर सी. एस एसगवर. ग्रेटर नोएडा. एलेंट नंबर 314, त्तीय तल. डीडीए एलआइंडी फुले. नोएडा जात्व कर 22. 09/06/ 8. 2021 14. सोनू वर्ग, कीशांठी वर्ग, गूनिट नंबर 2102. टावर सी. एस एसगवर. ग्रेटर नोएडा. एले ट नंबर 110.1 (तंव तं वर वादे र. LBN0000004951250 08-09-2021	8.	आरडब्ल्यूए सोसायटी, सेक्टर–30, नोएडा, उत्तर प्रदेश	प्लॉट नंबर जीएच–04 बी, सेक्टर 16, ग्रेंटर नोएडा, उत्तर प्रदेश,	₩.	
10. माहित रामा, सताव शर्मा, इ138, 10वा एवन्यू, गांड सिटी 2, गाएडा, गांतमबुद्ध प्रिणि पंचर 1355, 14म राल, टावर जी, संस्कृति विहार, गौड़ सिटी 2 2021 11. माहित शर्मा, इ138, 10वा एवन्यू, गांड सिटी 2, गाएडा, गांतमबुद्ध फ्लैट नंबर 1554, 14मां तल, टावर जी, संस्कृति विहार, गौड़ सिटी 2 2021 11. माहित शर्मा, इ138, 10वा एवन्यू, गांड सिटी 2, गाएडा, गांतमबुद्ध फ्लैट नंबर 1554, 14मां तल, टावर जी, संस्कृति विहार, गौड़ सिटी 2 06/057, 2021 12. आयुतोष कृमार शिवा स, स्वाति भिश्रा, डी–138, चेवटर-12, प्रताप विहार, तिकट युति सं रा554, 14मां तल, टावर जी, संस्कृति विहार, गौड़ सिटी 2 06/057, 2021 12. आयुतोष कृमार शिव सी, बी45, धैवटर-12, प्रताप विहार, तिकट युति सं रा554, 14मां तल, टावर जी, संस्कृति विहार, गौड सिटी 2 06/057, 2021 13. केवत कृमार शेव सत, विंत स्वर और समाउंट गोरक फोरेस्टी बिला जीटा-1 के सामने, नेपंडा, प्रतार प्रदेश फ्लैट नंबर 1701, 17यां तल, टावर जाई, अजनारा धैनोरामा लंदन रू. 01-09-2021 09/06/ 2021 14. सोनू वर्मा, कोशांकी वर्मा, युतिट नंबर 2102, टावर सी, एस एसायर, ग्रेटर गोएडा, प्रतार प्रदेश, कोंडली पड़ो, गोएडा, प्रतार प्रदेश, नोएडा, प्रतार प्रदेश, नोएडा, जात्तर प्रदेश, नंबर 310, 17यां तल, टावर याई, उत्तनार प्रदेश, नोएडा, जात्तन, दावर प्रदेश, नोएडा, उत्तर प्रदेश, 2021 09/06/ 2021 14. सोनू वर्मा, कोशांकी वर्मा, युल्ट नंबर 31, प्रता एवेन्य, प्रतार फरें, युंदर, नोएडा, जात्तन वर 27/7/2 (20-1) 12/040 इंकाल नंबर 12781, वार्व सं 116,1723/- 09/06/ % 14. सोनू वर्मा, किराली-110096 यावा तंबर	9.	9/10, मित्रा हॉस्पिटल के पीछे, सेक्टर-35, नोएडा,		₩.	
भा बंस नेवर := LBNOD00004705771 प्राण्य के राज के प्राण्य के प्र	10.	नगर		₩.	
12. आशुतोष कुमार मिश्रा, स्वाति मिश्रा, डी–138, सेक्टर–12, प्रताप विहार, निकट यूनियन बैंक, गाजियाबाद, याता नंबर :- LBN000004912604 प्लॉट नंबर 785, ब्लॉक 7 डी, सेक्टर–18, नोएडा 08–09–2021 %. 2021 09/06/ 2021 13. केशत कृषार, मेहा देती, सी 425, बैरामाउंट गोल्फ फोरेस्टी विला जीटा–1 के सामने. नोएडा, उत्तर प्रदेश खाता नंबर :- LBN0000004911552 फुलैट नंबर आई–09, मू तल, टावर–आई, अजनारा मैनोरामा लंदन रु. 24.156/– 01–09–2021 %. 2020 31/08/ 2020 14. सोनू वर्गा, कोशांकी वर्गा, यूमिट नंबर 2102, टावर सी. एस एसपायर, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, उत्तर प्रदेश खाता नंबर :- LBN00000019155390 फुलैट नंबर 1701, 17वां तल, टावर वाई–18, इरोस सम्पूर्णम, प्लॉट %. 22.147 मा लंदन रु. युहेल स्वाया नंबर :- LBN0000005153390 08–09–2021 %. 2020 09/06/ 2021 15. गुडिया आवार्य, तिति आवार्य, फुलैट नंबर 38 एफ, पाकेट बी 7, जनता फुलैट, आय फुलैट नंबर 314, तृतीय तल, डीडीए एलआईची फुलैट, जय अम्ब आयार्य, तित्ता तावा नंबर :- LBN0000005153590 08–09–2021 %. 2021 09/06/ 2021 16. सतीशि कुमार, नीरज, 114 ग्वालीसन, झज्जर, हरियाणा खात नंबर 2177/2 (20–1) 12/640 इंतकाल नंबर 127618, वाई नंबर 314, 6.579/– 08–09–2021 %. 11.61,722.3/– 08–09–2021 %. 11.61,722.3/– 09/06/ 2021 त्वाता नंबर :- LBXB 100005125460 प्लेरें नंबर 202, खेवट नंबर 217/2 (20–1) 12/640 इंतकाल नंबर 127818, वाई नंबर 8. 11.61,722.3/– 09/06/ 2021 06/04/ 2021 त्वाता नंबर :- LBXB 100005125460 प्ले देत तंबर 202, र खेवत नंबर 2177/2 (20–1) 12/640 इंतकाल नंबर 127818, वाई नंबर 8. 11.61,722.3/– 08–09–2021 %. 11.61,722.3/– 08	11.			<i>to</i> .	
10. नेपर द्वार प्रदेश ज्याता नंबर :- LBNDD00004941552 14. सौनू वर्गा, को 20, राजर प्रदेश खाता नंबर :- LBNDD00004941552 15. गुडिया आचार्य, त्वित टाइप I, प्लॉट नंबर आएज, तोएडा, ज्यार प्रदेश खाता नंबर :- LBND000005153390 15. गुडिया आचार्य, त्वित आचार्य, फ्लैट नंबर 38 एफ, पाकेट बी 7, जनता फ्लैट, मयूर विहार फेज-111. गई दिल्ली-110096 खाता नंबर :- LBND000005159058 16. सतीश कुमार, नीरज, 114 ग्वालीसन, झज्जर, हरियाणा खाता नंबर :- LBNB 100005159058 16. सतीश कुमार, नीरज, 114 ग्वालीसन, झज्जर, हरियाणा खाता नंबर :- LBNB 100005159058 16. सतीश कुमार, नीरज, 114 ग्वालीसन, झज्जर, हरियाणा खाता नंबर :- LBNB 100005159058 16. सतीश कुमार, नीरज, 114 ग्वालीसन, झज्जर, हरियाणा खाता नंबर :- LBNB 100005159058 16. सतीश कुमार, नीरज, 114 ग्वालीसन, झज्जर, हरियाणा खाता नंबर 27.7/2 (20-1) 12/640 इंतकाल नंबर 127818, वार्ड नंबर 19. ऋषि कालोनी, मवत चौक, वरखी दावशे रो, झज्जर, हरियाणा प्रवृत्त प्रदात करने हेतु वैकत्मिक कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त कर्जदार/रो तथा/अथवा उनके गारंटरों (जीसा तामू है) को बकाया शांश का भुगतान इस सूबना के प्रकाशन को वीथिय से 6 दिन के भीतर करने की सलाह दी जाती है, जन्वथा आगे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति दित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, के प्रावयानों के अनुसार आगे कदम उठा प्रविकृत अधिकरण	12.	यूनियन बैंक, गाजियाबाद,	प्लॉट नंबर 785, ब्लॉक 7 डी, सेक्टर-18, नोएडा	08-09-2021 ₹5.	
ने पेछा, उत्तर प्रदेश खाता नंबर :- LBN0000005153390 15. गुडिया आवार्य, लसित आवार्य, फलैंट नंबर 38 एफ, पाकेट बी 7. जनता फलैंट, खाता नंबर :- LBN0000005153390 15. गुडिया आवार्य, लसित आवार्य, फलैंट नंबर 38 एफ, पाकेट बी 7. जनता फलैंट, खाता नंबर :- LBN0000005153908 16. सतीश कुमार, नीरज, 114 ग्वालीसन, झज्जर, हरियाणा खाता नंबर :- LBNB 100005125460 16. सतीश कुमार, नीरज, 114 ग्वालीसन, झज्जर, हरियाणा खाता नंबर 227/7/2 (20-1) 12/640 इंतकाल नंबर 3269, गुस्टिल नंबर 19. क्रिये नंबर 2217/215, खाता नंबर 3269, गुस्टिल नंबर 19. क्रिये नंबर 2217/2215, खाता नंबर 3269, गुस्टिल नंबर 19. क्रिये नंबर 2217/2215, खाता नंबर 3269, गुस्टिल नंबर 19. क्रिये नंबर 227/7/2 (20-1) 12/640 इंतकाल नंबर 127818, वाई नंबर 19. क्रिये कलोनी, मयत चौक, वरखी दादरी रोड, झज्जर, हरियाणा स्वना नंबर :- LBXB 100005125460 प्रावन य्वना प्रदान करने हेतु वैकस्पिक कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त कर्जदार/रों तथा/अथवा उनके गारंटरों (जैसा लागू है) को बकाया राशि का भुगतान इस सूबना के प्रकाशन की तिथि से 6 दिन के भीतर करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आगे बित्तीय आस्तियों का प्रतिमूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिमूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, के प्रावयानों के अनुसार आगे कटम उठा पार्थिय : 05 फरवरी, 2022 प्रायिकृत अधिकार्य	13.	नोएडा, उत्तर प्रदेश	स्क्वायर, विला टाइप ।, प्लॉट नंबर जीएच-04, सेक्टर 22, यमुना	₩.	
पूरा दिशर फेज-111. नई दिल्ली-110096 खाता नंबर :- LBND000005159058 16. सतीश कुमार, नीरज, 114 म्वालीसन, झज्जर, हरियाणा खाता नंबर :- LBXB 100005125460 प्रवना प्रदान करने हेतु वैकस्पिक कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त कर्जदार/रों तथा/अथवा उनके गारंटरों (जैसा तामू है) को बकाया राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन की विथि से 6 दिन के मीतर करने की सलाह दी जाती है, जन्यथा आगे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिरुरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, के प्रावधानों के अनुसार आगे कदम उठा तथारंगे। तथि : 05 फरवरी, 2022	14.	नोएडा, उत्तर प्रदेश		₩.	
सितीश कुमीर, नरिज, 114 ग्वालसिन, झेफजर, हरियाणा खाता नंबर :- LBXB 100005125460 विकित नंबर 27/7/2 (20-1) 12/640 इंतेजल नंबर 127818, वार्ज नंबर 19. ऋषि कालोनी, मगत चौक, चरखी दादरी रोड, झज्जर, हरियाणा 14.48.579/- 19. ऋषि कालोनी, मगत चौक, चरखी दादरी रोड, झज्जर, हरियाणा 14.48.579/- 14.48.579/- विन के मीतर करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आगे वित्तीय आस्तियों का प्रतिमूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिमूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, के प्रावधानों के अनुसार आगे कट्रम उठा प्रावधाने विथि से 6 दिन के मीतर करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आगे वित्तीय आस्तियों का प्रतिमूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिमूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, के प्रावधानों के अनुसार आगे कटम उठा पार्थिय : 05 फरवरी, 2022	15.	मयूर विहार फेज-111, नई दिल्ली-110096		₩.	
दिन के भीतर करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आगे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रबर्तन अधिनियम, 2002, के प्रावधानों के अनुसार आगे कदम उठा जाएंगे। तिथि : 05 फरवरी, 2022	16.	3	154, किला नंबर 27/7/2 (20-1) 12/640 इंतकाल नंबर 127818, वार्ड नंबर	₩.	
तिथि : 05 फरवरी, 2022 प्राधिकृत अधिकार	दिन व	के भीतर करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आगे बित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति			